



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 29, 2009/माघ 9, 1930

No. 44]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2009/MAGHA 9, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2009

सं. 9/2009-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 55(अ).—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2917 35 00 के अंतर्गत आने वाले फैथालिए एनहाइड्रेड के आयात के संदर्भ में महानिदेशक (रक्षोपाय), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 1 जनवरी, 2009 सं. सा.का.नि. 3 (अ), तारीख 1 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि भारत में फैथालिए एनहाइड्रेड के संवर्धित आयातों से फैथालिए एनहाइड्रेड के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है तथा उन्हें आगे गंभीर क्षति होने का खतरा है और भारत में फैथालिए एनहाइड्रेड के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना लोकहित में होगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम 1997 के नियम 10 और 14 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक (रक्षोपाय) के उक्त निष्कर्ष पर विचार करने के पश्चात, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2917 35 00 के अंतर्गत आने वाले फैथालिए एनहाइड्रेड पर, जब उसका भारत में आयात किया जाये, 25 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करती है।

2. इस अधिसूचना की कोई बात उक्त अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (6) के खंड (क) के अधीन विकासशील देशों

के रूप में अधिसूचित देशों, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और थाईलैंड को छोड़कर, से किए गए फैथालिए एनहाइड्रेड के आयातों पर लागू नहीं होगी।

3. इस अधिसूचना द्वारा अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क (यदि उसका खंडन, अधिक्रांत और संशोधन न किया जाये) 16 अगस्त, 2009 जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक प्रभावी रहेगी।

[फा. सं. 354/10/2009-टीआरयू]

लिमातुला यादेन, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2009

No. 9/2009-Customs

G.S.R. 55(E).—Whereas, in the matter of import of Phthalic anhydride, falling under tariff item 2917 35 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Act), the Director General (Safeguard), in preliminary findings vide number G.S.R. 3 (E), dated the 1st January, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 1st January, 2009, had come to the conclusion that increased imports of Phthalic anhydride into India had caused and threatened to cause further serious injury to the domestic producers of Phthalic anhydride and it necessitates to impose provisional safeguard duty on imports of Phthalic anhydride into India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8B of the said Act, read with Rules 10 and 14 of the Customs Tariff (Identification, and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, the Central Government after considering the said findings of the Director General (Safeguards), hereby imposes on Phthalic anhydride, falling under tariff item 2917 35 00 of the First Schedule to the said Act, when imported into India, a safeguard duty at the rate of 25% *ad valorem*.

2. Nothing contained in this notification shall apply to imports of Phthalic anhydride from countries notified as

developing countries under clause (a) of sub-section (6) of Section 8B of the said Act, other than Pakistan, Indonesia and Thailand.

3. The safeguard duty imposed under this notification shall be effective upto and inclusive of the 16th August, 2009 (unless revoked, superseded or amended earlier).

[F.No. 354/10/2009-TRU]

LIMATULA YADEN, Dy. Secy.